



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 39-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019 (PHALGUNA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 फरवरी, 2019

संख्या 26/एस०टी०-1/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2019.- चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 60 की उप-धारा (1) के साथ पठित उक्त उप-धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 65 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"65 यदि अपील प्राधिकारी अपील को संक्षेपतः अस्वीकृत नहीं करता तो इसकी सुनवाई के लिए कोई तिथि नियत करेगा तो सामान्यतः उस तिथि से, जिसको उसकी सूचना अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजी गई हो, दस दिन से कम न हो। अपील का निर्णय, उस प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, सूचित करने के पश्चात् और किसी अभ्यावेदन या प्रत्याक्षेप पर, जो उसके द्वारा स्वयं या उसके किसी अधीनस्थ अथवा राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाए विचार करने के पश्चात् और अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही, किया जाएगा। अपीली प्राधिकारी मामले का सदैव प्रतिप्रेषण नहीं करेगा, जहां विधि का प्रश्न अन्तर्वर्तित है किन्तु स्वयं विवाधान का निर्णय करेगा और अपील का निर्णय करने से पूर्व ऐसी और जाँच करवा सकता है या उस प्राधिकारी से करवाने के लिए विदिष्ट कर सकता है, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई हो और जो उक्त अपील प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो तथा धारा 31 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार कोई आदेश पारित कर सकता है।"

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNEMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 27th February, 2019

**No. 26/ST-1/H.A.6/2003/S.60/2019.** - Whereas the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 read with the proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 for rule 65, the following rule shall be substituted, namely:-

“65. If the appellate authority does not reject the appeal summarily it shall fix a date for its hearing ordinarily not less than ten days from the date on which intimation thereof has been sent to the appellant or his authorised agent. The appeal shall be decided after notice to the authority against whose order the appeal has been made and after considering any representation or cross objection that may be made by it either in person or through any of its subordinate or through an authorised representative of the State Government and after affording an opportunity to the appellant or his authorised agent of being heard. The Appellate Authority shall not ordinarily remand the case where a question of law is involved but decide the issue itself and may, before deciding the appeal hold such further inquiry or direct it to be held by the authority against whose decision the appeal has been preferred, as may appear necessary to the said appellate authority, and may pass an order in accordance with the provisions of sub-section (8) of section 31.”;

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.